

KENDRIYA VIDYALAYA IIT KANPUR

ADMISSION NOTICE 2020-21

Registration for admission in KV IIT Kanpur for class 1 and VI will be open for all. The process of registration for admission in class 1 and class VI are different and is explained below. These changes have been put in place due to the ongoing COVID-19 pandemic. We will try to keep all the modalities through email, and contact-free.

HOW TO APPLY FOR ADMISSION

FOR CLASS 1:-

Online Registration for Admission to Class I in Kendriya Vidyalayas for the Academic Year 2020-2021 will commence at 10:00 am on 20.07.2020 and will close at 7:00 pm on 07.08.2020. The admission to class I is done online in a centralized manner. The Admission details can be obtained through website <https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in> and also through Android Mobile App. The official Android Mobile App for KVS Online Admission for Class I for the academic year 2020-2021 and instructions for downloading and installing the App will be available at <https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps/>. The app will be available at the above URL and also at the Google Play Store. Parents are requested to go through the instructions for using the portal and mobile app carefully before using them. Provisional selected list for Admission will be displayed on 11/08/2020 on vidyalaya website (<https://iitkanpur.kvs.ac.in>). In case of any query help desk member can be contacted (Sh. Mohd. Amir: 09369134056)

FOR CLASS VI:-

Registration for admission to Class VI will be done from 20.07.2020 to 25.07.2020 upto 4:00 PM. All information regarding Admission Guidelines, Registration form will be available on Vidyalaya website (<https://iitkanpur.kvs.ac.in>) for download from 20 July 2020. Kindly fill the Registration form, scan it and send it along with the required documents to KV through dedicated email (admissionskviitk@gmail.com) only. Response E-mail will be sent to all parents on the receipt of the registration form indicating a registration number. Kindly use this registration number for all further enquiries. In case a response E-mail with the registration number is not received, please contact help desk / admission in-charge on mobile number (Sh. B K Chaubey: 09450327417 or Sh. S K Pal: 09935136011). List of Provisionally selected candidates will be displayed for class 6 on 28/07/2020. Those selected for admission will be getting admission form through E-mail. Scanned filled-in admission form along with self-declaration is to be sent by parents through the same dedicated email ID (admissionskviitk@gmail.com). After verification of all documents, a mail containing UBI Challan form for paying fees online will be sent to parents. Parents need to send back by E-mail the receipt of the fees paid. Confirmation of admission and schedule for online classes will then be shared with parents. Last date for admission in class VI is 31/07/2020.

In all the email communication(s) kindly mention in the subject line: Student's name - class to which admission is being sought. After receipt of the Registration number, please also add the registration number in the subject line.

SPECIAL PROVISIONS:-

10 seats in all classes (Except 1,6,10 and 12) put together can be recommended by the Chairman VMC for the wards of employees of the IIT Kanpur. Those interested and eligible as per KVS admission guidelines may send their request mentioning Name, class, date of birth of child and department/office contact details where employee is working in IIT on mail ID (kviit@iitk.ac.in). Based on recommendation of Chairman VMC, they will be contacted for further admission process. Those who have applied earlier are requested to be apply again.

In all the email communication(s) kindly mention in the subject line: Student's name - class to which admission is being sought. After receipt of the Registration number, please also add the registration number in the subject line.

As per Institute's office order Service Certificates for admission purpose of different category of employees of Institute are to be signed by the officers as below.

S N	Category of Employee	Officer designated to issue certificate
1	Children and grandchildren of employees of serving regular employees of IIT Kanpur	JR admin for non academic staff and Deputy Registrar Faculty Affairs for Academic staff
2	Children of Project employees	JR R&D IIT Kanpur
3	Children of PG/PhD students	AR DOSA IIT Kanpur
4	Children of serving council of wardens (COW) employees	AR DOSA IIT Kanpur
5	Children and Grand Children of Retired Regular employees of IIT Kanpur	JR(F&A) IIT Kanpur

R N Wadalkar

Principal



केन्द्रीय विद्यालय आई आई टी, कानपुर
KENDRIYA VIDYALAYA I. I. T., KANPUR

FOR OFFICE USE	REGISTRATION NO.:		DATE OF BIRTH									
CATEGORY:		SC/ST/OBC/Minority / General / PH /BPL/EWS :					Number of Transfers					

पंजीकरण कक्षा के लिए/Registration for Class.....

क्रम संख्या

Sl. No.

सत्र/Session.....

Passport Size
Photograph
of the
Candidate

1. विद्यार्थी का नाम

Name of the Student in full.....

(In Capital Letters)

लिंग/Sex : पुरुष/Male स्त्री/Female तृतीय लिंग/Third Gender

2. इसवी संवत् में जन्मतिथि (अंकों में)

(i) Date of Birth (In figures) (In Christian era) Days माह Month वर्ष Year

(शब्दों में) (In Words).....

(Attach an attested copy of birth certificate issued by the competent authority)

(ii) बच्चे की आयु 31.3.20...को/

Age for admission as on 31.3.20.... वर्ष/Year माह/Months दिन/Day

3. बच्चे का रक्त समूह/Blood group of the child

(Rh factor फैक्टर सहित/with Rh factor)

4. बच्चे की संबन्धित श्रेणी/The category to which child belong

सामान्य श्रेणी अनु० जाति अनु० जन जाति ओ०बी०सी० आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बी.पी.एल. अन्य रूप से सक्षम इकलौती कन्या

Gen. Cat SC ST OBC EWS BPL Diff. Abled SG Child

5. यदि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी.(अनय पिछड़े वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर/बी.पी.एल./विकलांग/इकलौती कन्या श्रेणी से सम्बंधित है तो कृपया संबन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

If the child belongs to SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G. Category, then, please attach relevant certificate.

6. माता पिता का ब्यौरा Details of Parents	माता Mother	पिता Father
i) नाम (स्पष्ट शब्दों में) Name (in capital letters)		
ii) राष्ट्रीयता Nationality		
iii) व्यवसाय Occupation		
iv) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष संख्या Name of office and full address		
with Telephone numbers.		
v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष /ईमेल आईडी सहित Full residential address &		
Tele. No./e-mail ID		
vi) विद्यालय से आवास की दूरी (कि.मी. में) * Distance of Residence from school (In Kms.) *		
vii) मूल वेतन Basic Pay		
viii) 31.3.20...तक सेवाकाल के दौरान ७ वर्षों में स्थानान्तरण की संख्या No. of transfers during 7 years as on 31.3.20....		

ix. माता/पिता की श्रेणी/Category of the parent # :

x. कर्मचारी कोड (यदि है तो)/Employee Code (If Any)

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

नोट: *विद्यालय से आवास की दूरी। दूरी के लिए माता-पिता/अभिभावक का शपथ पत्र मान्य है। **आवास प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।**
Note: *Distance of Residence from Vidyalaya. Undertaking from parents is acceptable for distance. **Proof of Residence is compulsory.**

** 31.3.20...क पिछले सात वर्ष में स्थानांतरणों की संख्या/No. of transfers during last 7 years as on 31.3.20....

1. केन्द्रीय सरकार/Central Govt. 2. केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of Central Govt.

3. राज्य सरकार/State Govt. 4. राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of State Govt. 5. अन्य/Othres

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।

I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर /Signature of Mother/Father/Guardian

तिथि/ Date:.....

पूरा नाम / Full Name.....

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र /CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं.....(नाम).....(रैंक/पदनाम).....(कार्यालय), एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.3.20...तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंक व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I,.....(Name).....(rank/designation) of (office), do hereby certify that during the past 7 yeas (up to 31.3.20....) I have been transferred times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र.सं. S.No.	कार्यालय/यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से From	तक To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाएगा।
I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर /COUNTER SIGNATURE

मैं.....(नाम).....(रैंक/पदनाम).....

(कार्यालय), एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आदखों से जाँच लिया गया है व सही पाया गया है।

I,.....(name).....(rank/designation) of (unit/

depatment) heeby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in the office and found correct.

स्थान/Place.....

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)

दिनांक/Date.....

Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या

Complete address and Telephone No. of Office.....

टिप्पणी/Note -

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।

Minimum period of posting/stay at a place should be minimum six months.

सेवा प्रमाण-पत्र /SERVICE CERTIFICATE
(Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----कार्यालय/मंत्रालय में कार्यरत हैं।
आई.आई. टी. कानपुर के नियमित कर्मचारी/ आई. आई. टी. कानपुर के योजना कर्मचारी/ वार्डन परिषद के कर्मचारी/ वे रक्षा सेवा/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ सीमा सुरक्षा बल/ एन. एस. जी./ एस. पी. जी. / सी. आई. एस. एफ. / केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के / की कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण वित्त प्रबंध केन्द्रीय स्थानान्तरणीय/ अस्थानान्तरणीय है।

Cerified that Shri/Smt.....is working in the office / ministry of He/She is a regular employee of IIT Kanpur / Project employee/ Council of wardens (COW) employee of IIT. Kanpur. Defence service / CRPF / BSF / NSG / CISF / Central Government / autonomous Body/ public sector undertaking Fully Financed by Central Government & His/Her services are transferable/ Non transferable anywhere in India.

स्थान एवं दिनांक
Station with date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp
दूरभाष : Telephone No.....

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या
Complete address and Telephone No. of Office.....

सेवा प्रमाण-पत्र /SERVICE CERTIFICATE
(State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानान्तरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....is permanently working in the office/Ministry ofand his/her services are non-transferable / transferable anywhere in the State.

स्थान एवं दिनांक
Station with date

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp
दूरभाष/ Telephone No.....

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या
Complete address and Telephone No. of Office.....

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र /DIED IN HARNESS CERTIFICATE

(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी.....स्वर्गीय
श्री/श्रीमती.....के पुत्र/पुत्री हैं जो.....
(कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक
को हो गया था।

Certified that Master/Km.....is the son/daughter of late
Sh./Smt.....who was regular employee of
(Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on (date).

स्थान/Place.....

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या.....

Complete address and Telephone No. of Office

Certificate for retired employee of the I.I.T. Kanpur (For grand Children only)

Certified that Shri/ Smt.....was a regular
employee of I. I. T. Kanpur.....(deptt)
He was retired from I. I. T. Kanpur service on.....(date)
His P. F. No. is.....Key No.....
Shri / Smt.....(name of son/Daughter) is his son/daughter
as per service records available in the office.

Join Registrar (F & A)
I.I.T. Kanpur



केन्द्रीय विद्यालय आई आई टी, कानपुर
KENDRIYA VIDYALAYA I. I. T. , KANPUR

ACKNOWLEDGEMENT/पावती

REGISTRATION NO./पंजीकरण संख्या.....

क्रम संख्या
Sl. No.

Received an application from Shri/Smt.for registration of his/
her son/daughter.....for admission to class.....

श्रीमती/श्री से उनके पुत्र/पुत्री.....
.....के कक्षा.....में प्रवेश पंजीकरण हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त किया।

Principal/प्राचार्य

Date.....

तिथि

KENDRIYA VIDYALAYA (STAMP)

केन्द्रीय विद्यालय (मुद्रांक)